

September 02, 2020

#### **BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

Ref: H.P. Cotton Textile Mills Limited (Scrip Code: 502873)

Sub: Newspaper Publication of information regarding 39th Annual General Meeting of the Company

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30, 47 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published today i.e. September 02, 2020, in Business Standard (English Newspaper) and Hari Bhoomi (Hindi Newspaper) pursuant to General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs.

For H.P. Cotton Textile Mills Limited

Shubham Jain

Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above



**H.P. Cotton Textile Mills Limited** 

(A Government of India recognised Star Export House)

Corporate Office:

F-O, The Mira Corporate Suites, 1 & 2, Old Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110065, India

www.hpthreads.com

T: +91 11 26927387, 49073415 +91 11 41540471/72/73 F: +91 11 49073410

E: info@hpthreads.com

Regd. Office & Works:

15 K.M. Stone, Delhi Road, V.P.O Mayar, Hisar - 125 044, Haryana, India

CIN NO. L18101HR1981PLC012274



### HP COTTON H.P. COTTON TEXTILE MILLS LIMTED

(CIN: 18101HR1981PLC012274)

Regd. Office: 15th K.M. Stone, Delhi Road, V.P.O. Mayar, Hisar-125044

Website: www.hpthreads.com E-mail: info@hpthreads.com
Tet: +91 11 415404717/27/3, Fax: +91 11 49073410

NOTICE is hereby given that the Thirty Ninth (39th) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of H.P. Cotton Textile Mills Limited ('Company') will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 11.30 a.m. IST through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Video Means ('OAVM') in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020, dated 08th April, 2020, General Circular No. 17/2020, dated 13th April, 2020, General Circular No. 17/2020, dated 13th April, 2020, General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 and General Circular No. 22/2020 dated 15th June, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and SEBI circular no. SEBI/HO/CFI/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (SEBI Circular)

(MOA Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars').

In compliance with Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2019-20 ('Annual Report') will be sent only by email to all the members whose email ids are registered with the Company/Depository participant. The requirements of sending the physical copy of the Annual Report to the Members have been dispensed with in accordance with the aforesaid Circulars. The members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Annual Report can be downloaded from the Company's website at www.hpthreads.com, websites of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and CDSL website at www.evotingindia.com.

Members whose email ids are not registered with the Company/Depository participants may follow the below process for registering or updating their email ids for receiving all communica tions including Annual Report, Notices etc. from the Company electronically.

a) Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their email address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Company/RTA with details of folio number, email-id and attaching a self-attested copy of PAN card Company in A wind related or into Intimet, entained and attacting a sen-attested copy of PAIV Cart at cs@hpthreads.com or Company's RTA at info@alankit.com
b) Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their emai

addresses with the relevant Depository Participant
The Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the

AGM to its members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM by electronic means and the facility being provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL)

Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members who present in the AGM racinity for e-voting at the Acid will be made available to those Members who present in the Acid with frough VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through premote e-Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with the Company / Depository or any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and belde cheen as the property of the Company, and

holds shares as on the cut-off date, i.e. September 22, 2020, he/she may write to the Company on the E-mail ID: cs@hpthreads.com or CDSL on the E-mail ID: helpdesk.evoting@cdslin-dla.com. However, if a member is already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote.

for H.P. COTTON TEXTILE MILLS LIMITED Company Secretary



ZOSARB, 13th Floor, Bank of Baroda Building, 16 Sansad Marg, New Delhi-110001

M/s.Shakti Bhog Foods Ltd., 404-405, 4th Floor Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place,

M/s.Shakti Bhog Foods Ltd., Pearl Business Park Netaji Subhash Place, Pitampura New Delhi 110034 M/s.Shakti Bhog Foods Ltd., Unit-I 24/25 SSI Industrial Area, GT Karnal Road, Delhi 110052

M/s.Shakti Bhog Foods Ltd., Unit-II 112, samaipur Badli Industrial Area, Delhi 110042

M/s.Shakti Bhog Foods Ltd., Unit-IV Village salempur Mehdood Distt. Haridwar 249402

M/s.Shakti Bhog Foods Ltd., Unit-V Village samara Bahu, G T karnal Road, distt. Karnal (Haryana) 110052

M/s.Shakti Bhog Foods Ltd., 33, SSI Industrial Area, GT karnal Road, Delhi 110052

Mr. Kewal Krishnan Kumar, Director & Guarantor, 61/15, Punjabi bagh(West) Delhi 110026

Mr. Sidhartha Kumar, Director & Guarantor, 61/15, Punjabi Bagh (West) Delhi -110026

Mrs. Sunanda Kumar, 61/15, Punjabi bagh(West) Delhi 110026

M/s Dash Export Pvt Limited-Guarantor, 109, Samaipur, 1st Floor, Gali No. 6, New Delhi – 110042, Delhi M/s Dash Export Pvt Limited- Guarantor, 1102-B, Pearls Business Park, Netaji Subhash Place, Pitampura New Delhi - 110034, Delhi

Re: Show Cause Notice for declaring M/s. Shakti Bhog Foods Ltd and its Directors and Guarantors as Wilful Defaulters and Opportunity for Representation there against.

We refer to your captioned account and write to inform you that due to non-payment of interest/instalment, account turned to Non-Performing Assets in the books of the Bank on 24.06.2015

We further write to inform you that as per the directions of the Committee of Executives on Wilful Defaulters of our Bank and on scrutiny of your account based on your acts of omission and commission, deeds/ documents and writings, performed /executed by the company, the company and its Directors be classified as Wilful defaulters as per guidelines of RBI on the following grounds:

1) During the FY 2015-16, Inventory costing Rs. 3035.52 Cr got damaged due to pest.

- However, as per stock and receivable audit report conducted during the period 16.01.2016 to 29.02.2016 for the quarter ending September 2015, company in its stock and receivable statement informed value of inventory as Rs.3537.55Cr and the average monthly stock maintained by the company throughout the period from April 2015 to December 2015 was Rs. 3514.00 Cr. Further Stock Auditor not identified any goods in the inventory as old/slow moving/non-moving or damaged
- In March, 2016 the company reported its inventory as Rs.235.93Cr in its audited financial statement.
- Company has disposed the stock at a substantially low price.
- The proceeds of the damaged inventory were not routed through Bank accounts as it was found from the  $Bank \, statements \, that \, Rs. 113.41 \, crreceived \, by \, SBFL \, during \, the \, period \, from \, March, \, 2016 \, to \, March, \, 2017 \, to \, March, \, 2018 \,$
- It is unusual that inventory costing Rs.3035.52 cr got damaged and funds not realised from the damaged
- As per the information provided by SBI, Lead Bank, no insurance claim is pending at present Total Payments of Rs. 341.05 Cr (Rs. 111.26 Cr in the form of LC and Rs.229.79 Cr in the form of direct
- payments made from bank accounts) were made to five vendors by the company. It was observed that 2 vendors have invalid TIN (Annapurna Trading company and Ganesh Overseas) and PAN of 2 transporters
- Truck numbers mentioned in transport challan indicated that they were not registered in the correct class of
- vehicles. (-54- of the vehicle numbers mentioned were registered as Two Wheeler-Baiai Chetak, Royal Enfield Bullet, Honda Activa etc.., Ambulance, school bus, low capacity transport vehicles.
- the transporters Kamal Trading Company and Maa Durga Road lines by the mentioned names have never existed at the given addresses or anywhere in the market.
- the Vendors Annapurna Trading Company and Ganesha Overseas does not exist at the address mentioned
- It appears that payment to these vendors were not genuine and it creates a suspicion over the payments of
- On review of the financial statements of Shakti Bhog Foods Limited (SBFL), Shakti Bhog Snacks Limted (SBSL- Related Party) and Bhawna Portfolio Private Limited(BPPL-related Party) it was observed that during FY 2015-16, SBFL advanced Rs. 30.00 Cr to SBSL and further SBSL advanced Rs. 24.00 Cr to BPPL the same EV 2015-16 RDDL influend Re 11 00 Cr to SREL as no unsecured loan .Hence funds amounting to Rs.11.00Cr were potentially round ripped to SBFL through its related parties as promoters contribution.
- Company was maintaining current accounts with Axis Bank Limited and IDBI out of the consortium. SBFL has received and transferred Rs119.76 Cr and Rs.154.88 Cr respectively from/to out of consortium banks accounts of SBFL
- On review and comparison of audited financials of SBFL with audited financial s of KFIL the following observations made:
- For the Financial year 2015-16 it was observed that there was a difference in the related party disclosures in the audited financial statements for the sales made by SBFL to Dash Exports Private Limited (DEPL) and purchases made by SBFL from DEPL. Thus, leading to difference of sale by SBFL to Rs. 26.18 Cr and difference of purchases of Rs. 23.42 Cr respectively. Additionally Mr. Kewal Krishnan Kumar and Mr. Siddharth Kumar are the directors in both the companies and Ms.Sunanda is past director in DEPL and present director of SBFL.

(RS.III CI)						
S.No.	Financial Year	Transaction	Disclosure By SBFL(A)	Disclosure by DEPL(B)	Difference bet A&B	Remarks
1.	2015-16	Purchases	29.00	(*)2.81	26.19	Diff In disclosure of sales
2.	2015-16	Sales	24.18	(*)0.76	23.42	Diff in disclosure

(\*) The figures reported are total amount of related party transactions.

6) i) As per the stock and receivable statement of SBFL, outstanding debtor and creditor balance for the month of March 2015 was Rs.69.68Cr and Rs.475.32cr Respectively.

However, as per the financial statement s for FY 2014-15, the outstanding debtors and creditors were disclosed as Rs. 35.54 Cr and Rs.718.79 Cr respectively.

Thus, leading to an overstatement of debtor balance by Rs.34.14Cr and understatement of creditor balance by

ii) Out of -20-creditors disclosed in payables statement submitted along with stock and receivable statement, it was noted that SBFL has disclosed a creditor named Veebro Techno Plast Private Limited with a balance outstanding of Rs.79.98Cr, However, on review of the audited financial statement of VTPL filed with MCA for FY 2014-15, it was noted that their total receivables amounting to Rs.15.69Cr. Therefore, the difference of Rs.64.29Cr leads to an inflated purchase or creditor balance. On investigation by the forensic auditor it was found that VTPL office never exists in the address given, from this it is concluded that SBFL has potentially misrepresented its financial position to consenting consortium members which could possibly be in order to receive an increased drawing power facility from its cash credit account.

7) During 01.04.2013 to 31.03.2017 it was observed that 16.21% of total receipts of Rs.1167.91cr are from those debtors with whom SBFL made purchases and approximately 11.47% of total payments amounting to Rs.960.65cr were from those creditors to whom SBFL has sold goods. 8) During the FY 2013-14, SBFL made payment amounting to Rs.12.31Cr to one of the vendor namely M/s.R B

Kissan Kendra Private Limited (RBKKPL). a) On analysis of the stock and receivable statement of SBFL submitted with consortium members, it was noted

that RBKKPL is listed as creditor in the creditor's statement. b) On analysis of financial statements of RBKKPL for FY 2013-14, it was noted that RBKKPL has total revenue of

Rs.0.73Cr from operations and its advance from suppliers was Rs.0.26cr From the above, it creates a suspicion on the veracity of the payments amounting to Rs.12.31Cr made by SBFL to

The company has defaulted in meeting its payment/ repayment obligations to the lender and has siphoned off the funds so that the funds have not been utilised for the specific purpose for which finance was availed of,

nor are the funds available with the company in the form of other assets In terms of RBI guidelines and to comply principles of natural justice, if you, desire, you may send your submission for consideration by the Committee of Executives, headed by our Executive Director within -15days from the date of receipt of this letter as to why your account and you be not classified by Bank as a Wilful Defaulter. The Committee reserves the right to give or not to give the personal hearing to decide about

Please note that, in case your submission against the intention of Bank to declare you as a Wilful Defaulter is not received within -15- days from the date of receipt of this letter, the Bank will proceed further and classify your account as wilful defaulter. Bank reserves the Right to publish the name and photograph of Wilful

classifying as wilful defaulter in case your submission is received.

Defaulter in News Paper and will initiate the necessary recovery action as per extant guidelines issued by

This communication is issued as per the directions of the Committee of Executives on Wilful Defaulters (COE).

Assistant General Manager





To book your copy, call **022-40275432** or SMS **reachbs** to **57575** or email us at **order@bsmail.in** 





www.business-standard.com















# यूएस ओपन : जीत के साथ जोकोविच ने इस साल अपना रिकार्ड 24-0 पर पहुंचाया

# जोकोविच और ओसाका दूसरे दौर में, गॉफ हारकर बाहर, बड़ी मुश्किल में जीतीं ओसाका

एजेंसी 🕪 न्युयार्क

नोवाक जोकोविच ने वर्ष 2020 में अपना विजय अभियान जारी रखते हुए आसान जीत के साथ यूएस ओपन टेनिस टुर्नामेंट में शानदार शुरुआत की लेकिन अमेरिकी किशोरी कोको गॉफ को पहले दौर में हार का सामना करना पडा। कोविड-19 महामारी के कारण इस बार यूएस ओपन में दर्शकों को अनुमित नहीं दी गयी है।

जोकोविच ने दी दामिर को मात

विश्व के नंबर एक सर्बियाई खिलाड़ी ने अपना 18वें ग्रैंडस्लैम जीतने के अभियान की शुरुआत दामिर दाजमहर पर 6-1, 6-4, 6-1 की जीत से की। इस तरह से उन्होंने इस साल अपना रेकॉर्ड 24-0 पर पहुंचा दिया है। उन्होंने इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था।

### अमेरिका की कोको पहले दौर में ही बाहर

अमेरिका की कोको गॉफ हालांकि पहले दौर में ही हार गई। अनास्तेसिया सेवास्तोवा ने इस १६ वर्षीय खिलाडी को ६-३. ५-७. 6-4 से हराया। पिछले साल गॉफ तीसरे दौर तक पहंचने में सफल रही थी। महिला वर्ग में ही शीर्ष वरीयता प्राप्त कारोलिना पिलिसकोवा ने सीधे सेटों में जीत दर्ज की। उन्होंने एंजेलिना कालिनिना को 6-4, 6-0 से पराजित किया

### तीन सेट जुझना पड़ा ओसाका को

इस बीच २०१८ की महिला चैंपियन नाओमी ओसाका को अपनी हमवतन जापानी खिलाडी मिसाकी ढोड के खिलाफ तीन सेट तक जूझना पड़ा। चौथी वरीयता पाप्त ओसाका को कोर्ट कवर करने में परेशानी हो रही थी लेकिन आखिर में वह विश्व में 81वें नंबर की बोड को ६-२, ५-७, ६-२ से हराने में सफल रही।

### स्टीव ने जीतने तीन घंटे बहाया पसीना

पुरुष वर्ग में स्टीव जॉनसन ने 16वीं वरीयता प्राप्त जॉन इसनर को तीन घंटे 50 मिनट तक चले मैच में 6-7 (5), 6-3, 6-7 (5), 6-3, 7-6 (3) से हराया। नौंवी वरीयता प्राप्त डिएगो श्वार्टजमैन भी पहले दौर से आगे नहीं बढ पाए। कैमरन नोरी ने उन्हें लगभग चार घंटे तक चले मैच में 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5 से शिकस्त दी।

### अन्य खिलाडियों ने भी दिखाया दमखम

सातवीं वरीयता प्राप्त डेविड गोफिन ने रीली ओपेलका को 7-6, 3-6, 6-1, 6-4 से जबिक 19वें वरीय टेलर फ्रिट्ज ने डोमिनिक कोफर को 6-7, 6-3, 6-2, 6-4 से पराजित किया। पुरुष वर्ग के अन्य मैचों में चौथी वरीयता प्राप्त स्टेफेनोस सिटिसिपास, पांचवीं वरीयता प्राप्त अलेक्सांद्र जेवरेव और12वें वरीय डेनिस शापोवालोव ने भी दूसरे दौर

### विजय क्रम को जारी रखुंगा : जोकोविच

जोकोविच ने मैच के बाद कहा, 'मैं अपने इस विजय क्रम को निश्चित तौर पर जारी रखना चाहता हूं कि लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन इसे पहली प्राथमिकता मानता हं। यह मेरे लिए अतिरिक्त प्रेरणा जरूर है। इससे मुझे अधिक दमदार और बेहतर खेल दिखाने की प्रेरणा मिलती है।'

### सीएसके के सभी 13 सबस्यों की कोविड जांच नेगेटिव

**नर्ड दिल्ली।** चेन्नर्ड सपर किंग्स के दल के सभी 13 सदस्य कोविड-१९ के नवीनतम परीक्षण में नेगेटिव आए हैं। इस इंडियन प्रीमियर लीग टीम के सीईओ केएस विश्वनाथन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पिछले हफ्ते की शुरुआत में हुए कोविड परीक्षण में ये सभी पॉजिटिव पॉए गए थे। भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर और भारत ए के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ उन 13 लोगों में शामिल थे जो कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए थे और 14 दिन के पृथकवास से गुजर रहे हैं। सोमवार को हुए परीक्षण में ये सभी नेगेटिव आए हैं।

#### मेस्सी को लेकर असमंजस, बार्सिलोना का पहला मैच विल्लारीयाल से होगा

मैड्रिड। बार्सिलोना यह नहीं जानता कि अगले सत्र में उसे स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की सेवाएं मिल पाएंगी या नहीं लेकिन उसे इतना पता है कि नये सत्र की शुरुआत में वह अपना पहला मैच सितंबर के आखिर में विल्लारीयाल के खिलाफ खेलेगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा ने सोमवार को अपने कैलेंडर की घोषणा की।

# विराट कोहली को लगा झटका स्टार गेंदबाज केन हुए बाहर

एजेंसी ▶▶। दुबई

आईपीएल का 13वां सीजन अभी शुरू भी नहीं हुआ है और लगातार चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के 13 सदस्यों का कोरोना पॉजिटिव होना फिर अनुभवी खिलाड़ी सुरेश रैना का आईपीएल के इस सीजन से नाम वापस लेना, और अब झटका लगा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। आरसीबी के स्टार गेंदबाज केन रिचडर्सन आईपीएल के इस सीजन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। दरसल रिचर्ड्सन जल्द ही पिता बनने वाले



हैं और वह अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने टुर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। विराट कोहली की टीम में रिचडर्सन ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जम्पा को शामिल किया गया है।

लॉकडाउन से आर्ड

जीडीपी में गिरावट

रिपोर्ट में कहा गया है कि

रोकने के लिए देश में 25

मार्च, २०२० से राष्ट्रव्यापी

लॉकडाउन लगाया गया

जिससे जीडीपी में गिरावट

आई। हालांकि, यह

गिरावट बाजार और

उसके अनुमान से कहीं

कोविड-१९ का प्रसार

### पारिवारिक हादसे के बाद भारत लौटे रैना

**नई दिल्ली।** आईपीएल २०२० से अचानक सुरेश रैना के बाहर हो जाने से कयास लंग रहे थे कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए रैना ने आईपीएल से अलग होने का फैसला किया है लेकिन

अब रैना ने खुद ट्वीट कर अपने परिवार के साथ हुए हादसे का जिक्र करके एक हद तक खुद के आईपीएल से बाहर होने का कारण बताया है। रैना

ने अपने टवीट में परिवार के साथ हुए हादसे का जिक्र किया है, उन्होंने लिखा है कि 'जो भी मेरे परिवार के साथ पंजाब में हुआ वो बेहद ही शर्मनाक है, मेरे अंकल की हत्या कर दी गई, मेरे बुआ और मेरी कजिन को गंभीर चोटें आई दुर्भ्गाय से मेरे कजिन की मौत हो गई, मेरी बुआ अभी भी गंभीर हालत में हैं।

# जमकर प्रैक्टिस कर रहे रोहित

एजेंसी ▶≥। नई दिल्ली

चार बार की आईपीएल चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा 13वें सीजन से पहले जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारत में लगातार बढते कोरोना के मामलों को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन 19 सितंबर से युएई में खेला जाना है। भारत में इस महामारी की वजह से मार्च से ही क्रिकेट गतिविधियों पर ब्रेक लगा था, जिसकी वजह से खिलाडी प्रैक्टिस तक नहीं कर पाए। यूएई में आईपीएल शुरू होने से पहले खिलाड़ी प्रैक्टिस में जुटे हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा भी जमकर मेहनत कर रहे हैं। मौजूदा चैंपियन टीम मुंबई ने अपने कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अलग-अलग शॉट्स खेलते नजर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस की टीम 21 अगस्त को युएई पहुंची और 29 अगस्त से उसके खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग शुरू की।



### डुप्लेसिस, एनगिडी रबाडा आईपीएल के **लिये यूएई पहुंचे** दुबई। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर फाफ

इंप्लेसिस, लुंगी एनिगडी और कैगिसो रबाडा 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल के लिये मंगलवार को तड़के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचे। ढक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान डुप्लेसिस और तेज गेंदबाँज एनिगडी चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम में हैं जबकि रँबाडा दिल्ली कैपिटल्स की टीम से जुड़े। तीनों खिलाड़ियों को छह दिन तक पृथकवास पर रहना होगा। उनके पहले, तीसरे और छठे दिन परीक्षण किये जाएंगे और इन तीनों में नेगेटिव आने पर वे अभ्यास शुरू कर सकते हैं। भारत के सभी खिलाड़ी पहले ही यूएई पहुंच चुके थे और उन्होंने छह दिन के पुथकवास की अवधि भी पूरी कर ली हैं जो बीसीसीआई की मानक संचालन प्रकिया का हिस्सा है।

# वास्तविक जीडीपी में आएगी १०.९ प्रतिशत की गिरावट : इकोरैप

भारतीय स्टेट बेंक (एसबोआई) को शोध रिपोर्ट-इकोरैप में अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में

अप्रैल-जून तिमाही में 23.9 फीसदी की गिरावट आई

वास्त विक सकल घरेलू उ त पा द (जीडीपी) में 10.9 प्रतिशत की गिरावट आएगी। चाल वित्त वर्ष

की पहली तिमाही अप्रैल-जून में देश की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत रही थी। इससे पहले एसबीआई-इकोरैप में वास्तविक जीडीपी में 6.8 प्रतिशत की गिरावट

पीएफसीई की वृद्धि

में जोरदार गिरावट



का अनुमान लगाया गया था। बीते वित्त वर्ष की चौथी जनवरी-मार्च की तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रही थी। शोध रिपोर्ट में कहा गया है, हमारे शुरुआती अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष की चारों तिमाहियों में वास्तविक जीडीपी में गिरावट आएगी। परे वित्त

अधिक है। गिरावट आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 12 से 15 प्रतिशत की गिरावट आएगी। तीसरी तिमाही में यह -5 से -10 प्रतिशत के बीच रहेगी। इसी तरह चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में दो से पांच प्रतिशत की गिरावट वर्ष में जीडीपी में 10.9 प्रतिशत की आएगी।

रिपोर्ट कहती है कि जैसा कि अनुमान था कि निजी अंतिम उपभोग खर्च (पीएफसीई) की वृद्धि में जोरदार गिरावट आईं। कोविड-19 की वजह से लागु अंकुशों से ज्यादातर आवश्यक वस्तुओं का उपमोग घटा। एसबीआई इकोरैप के अनुसार क्षमता का पुरा इस्तेमाल नहीं होने की वजह से निवेश मांग नहीं सुधर रही है।

### सोने में ४१८ और चांदी में २,२४६ रू. की तेजी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में तेजी आने के बाद स्थानीय सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 418 रुपए की तेजी के साथ 52,638 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारीबारी संत्र में सीना 52,545 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी को भी भारी लिवाली का समर्थन मिला और इसकी कीमत 2.246 रुपए की तेजी के साथ 72,793 रुपए प्रति किग्रा पर पहुंच गई जो विगत कारोबारी सत्र में 70,547 रुपए प्रति किग्रा पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी आने के अनुरूप दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 418 रुपए की तेजी आई, हालांकि रुपए में लाभ दर्ज होने से सोने की तेजी पर कुछ अंकुश लग गया।

# बाजार में तेजी लौटी सेंसेक्स २७३ अंक चढ़ा

मुंबई। बाजार में एक दिन की गिरावट के बाद मंगलवार को फिर तेजी लौटी। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच बीएसई सेंसेक्स 273 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। भारती एयरटेल, एचयूएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजों के साथ बाजार में मजबूती आई। कारोबारियों के अनुसार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबती और इसके 73 से ऊपर पहंचने से भी बाजार धारणा को बल मिला। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद बीएसई सेंसेक्स 272.51 अंक यानी 0.71 प्रतिशत मजबूत होकर 38,900.80 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 82.75 अंक यानी 0.73 प्रतिशत मजबूत होकर 11,470.25 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में भारती एयरटेल रही। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, एनटीपीसी और एसबीआई के शेयर भी लाभ में रहे।

### सैमसंग के उत्तराधिकारी ली पर अनियमितता का आरोप

सियोल। दक्षिण कोरिया के अभियोजकों ने सैमसंग समूह के

आरोपों से लंबी कानुनी लडाई की आशंका बन

उत्तराधिकारी ली जाय-योंग पर शेयर कीमतों में गड़बड़ी और वित्तीय अन्य अनियमितताओं

का अभियोग लगाया है। इन आरोपों से इस बात को लेकर लंबी काननी



आशंका बन गई है कि क्या 52 वर्षीय अरबपति ने गैर का नूनी

लड़ाई

तरीके से इस दिग्गज कंपनी में अपना नियंत्रण स्थापित किया है। ली के वकीलों ने इन आरोपों को खारिज किया है।

दोषी पाए जाने पर ली फिर जा सकते हैं जेल

हालांकि, बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मामला फिर उच्च न्यायालय को भेज दिया

था। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ली को दोषी पाया जाता है तो उन्हें फिर जेल भेजा जा सकता है।

## अगस्त में फिर गिरा जीएसटी कलेक्शन

एजेंसी ▶े। नई दिल्ली

अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 86,449 करोड़ रुपए रहा जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 12 फीसदी कम है। पिछले साल अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 98202 करोड़ रुपये रहा था। इससे पहले जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 87422 करोड़ रुपये रहा था। वित्त मंत्रालय के मृताबिक अगस्त में अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 86,449 करोड रुपए रहा। इसमें से केंद्रीय जीएसटी मद में 15,906 करोड़ रुपये, एसजीएसटी के तौर पर करोड़ रुपये. आईजीएसटी के मद में 42,264 करोड रुपये (19,179 रुपये गुड्स के आयात से) और 7,215 करोड़ रुपये सेस से आए।

### पिछले साल से 12% रहा कम

- अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 86.449 करोड रुपये रहा
- पिछले साल अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 98202 करोड़ रहा था
- इससे पहले जुलाई में जीएसटी कलेक्शन ८७४२२ करोड़ था

किस मद में कितना राजस्व सरकार ने आईजीएसटी से रेग्युलर सेटलमेंट के रूप में 18,216 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 14,650 करोड़ रुपये एसजीएसटी का निपटारा किया। इसके बाद केंद्र सरकार को सीजीएसटी के रूप में ३४,१२२ करोड़ रुपये और राज्यों को एसजीएसटी के रूप में 35,714 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगस्त में वस्तुओं के आयात पर राजस्व पिछले साल अगस्त की तुलना में 23 फीसदी कम रहा जबकि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से हुई कमाई पिछले साल के मुकाबले 8 फीसबी कम रही।

# आयकर विभाग अब बैंकों के साथ टैक्स भरने वालों की जानकारी साझा करेगा

एजेंसी ▶≥। मुंबई

आयकर विभाग (इनकम टैक्स) ने अब बैंकों के साथ टैक्स भरनेवालों की पूरी जानकारी को साझा करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी अब शेडयल कॉमर्शियल बैंकों के साथ करदाताओं की जानकारी साझा कर सकते हैं।

इस कदम से बैंकों को यह तय करने में आसानी हो जाएगी कि उन्हें किस ग्राहक का टीडीएस काटना और किसका नहीं। टैक्स विभाग द्वारा जानकारी साझा करने के बाद बैंक अपने ग्राहकों के फॉर्म 15 जी

आयकर की धारा १३८ के तहत जानकारी होगी साझा आयकर अधिनियम की धारा 138 आयकर अधिकारियों को टैक्सपेयर्स की जानकारी को अन्य एजेंसियों के साथ साझा करने का अधिकार देती है। इन बैंकों को उन संगठनों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनके साथ टैक्स अधिकारी करदाताओं से जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं। इससे देश के बैंकिंग उद्योग से जुड़ी कई तरह की प्रशासनिक दिक्कतों का समाधान हो जाएगा।

शेडयुल्ड कमर्शियल बैंकों को होगी आसानी

आयकर अधिनियम की धारा 138 में इन बैंकों को शामिल किए जाने से शेडयूल्ड कमर्शियल बैंकों को विभिन्न तरह के पेमेंट पर अपने ग्राहकों के टीडीएस कटौती के बारे में निर्णय करने में आसानी होगी। इनकम टैक्स विभाग की इस योजना से टैक्स नहीं काटने में मदद मिलेगी। इससे सालाना रिफंड से भी इनकम टैक्स विभाग बच जाएगा।

इसके साथ ही पूर्व के टैक्स रिटर्न से विवरण का मिलान कर सकेंगे। सीबीडीटी ने 31 अगस्त को शेड्यल कॉमर्शियल बैंक को जानकारी

और 15 एच को वैलिडेट कर पाएंगे। साझा करने के लिए कुछ नियमों में जरूरी बदलाव भी किया। सीबीडीटी व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट टैक्स के संदर्भ में निर्णय करने वाली शीर्ष संस्था है।

### कोरोना की वजह से शहरी भारत में विषमता और बढी

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी से शहरी भारत में पहले से मौज़ूद विषमता और बढ़ी है। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स (एलएसई) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के दौरान सार्वजनिक पाबंदियो से रोजगार कम हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम आय वाले श्रमिकों की आय महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान ऊंची आय वर्ग के श्रमिकों की तूलना में अधिक घटी है। यानी कोविड-19 से पहले कम कमाई वालों की कमाई लॉकडाउन के दौरान अधिक घटी है। रिपोर्ट कहती है कि निम्न सामाजिकआर्थिक समूहों असंगठित क्षेत्र के कामगार. विशेषरूप से असंगठति क्षेत्र के युवा श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार से हाथ धोना पड़ा है।

#### खुली निविदा बिडिंग सिस्टम अपलोडिंग दिनाँक

चंडीगढ़ रनिंग रूम में रनिंग स्टॉफ हेतु सबसीडाइज़ड मील / फूड का

सिंगल पैकेट सिस्टम

1896/2020

निविदा बंद होने 23.09.2020 की दिनांक एवं 11:00 AM समय प्री बिड क्वेरी दिनांक प्री बिड हाँ / नहीं N.A एवं समय एडवेरटाइज्ड Rs. 4977169.20 टेण्डेरिंग सेक्शन O&F वैल्यू 45 days (45 दिन) धरोहर राशि निविदा की वैधता Rs. 99600/-कार्य अवधि दो वर्ष (24 माह) निविदा मूल्य Rs. 3000/-बिडिंग स्टार्ट डेट 09.09.20 निविदा खुलने की 23.09.2020 11:15

उत्तर रेलवे

गरत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता ∕ ओ&एफ अम्बाला के द्वारा ई

टेंडर संख्या 221-S/4/2/Subsidized Meal/DUI/M-4 के अंतर्गत खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं जिसके बंद होने की तिथि व समय 23.09.2020, 11:00 है जो उसी दिन 11:15 A.M बजे वेबसाइट पर खोले जायेंगें इस निविदा के अतंर्गत मैन्युअल ऑफर

स्वीकार्य नहीं होंगे टेंडर से सम्बंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर

देखे। टेंडरर ध्यान दें कि निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि का भुगतान वह केवल through

online payment मोड के द्वारा जो की IREPS पर उपलब्ध है जैसे की नेट बैंकिंग देबिट

कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से ही स्वीकार्य है डिमांड ड्रापट, बैंकर्स चेक, जमा

दो वर्ष हेतु ठेका (731 दिन)।

निविदा टाइप

संख्या:- 221-S/4/2/Subsidized Meal/DUI/M-4 दिनांक:- 31.8.2020 ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

> \P/ HP COTTON

दिनांक

एच.पी. कॉटन टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड

पतद् द्वारा सूचना द्वी जाते हैं कि एव.पी. कांटन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड (''कायनी') के सत्स्यों की टनतालीसवीं (३७वीं) वार्षिक सामान्य बैठक ('एमीएम') कामनी मामलों के मंत्रालय (''एमसीए सरकुलसे'') ह्वारा जारी सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या 27/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या 27/2020 दिनांक 08 मई 2020 तथा सामान्य परिपन्न संख्या 27/2020 दिनांक 15 जून 2020 और संबंध परिपन्न संख्या 27/2020 दिनांक 15 जून 2020 और संबंध परिपन्न संख्या 27/2020 2023 ('सेबी' सरकुलर') (एमसीए सरकुलसं और सेबी सरकुलर को सामृहिक रूप से "'सरकुलसं" के रूप में संदर्भित) के साथ पढित सेबी (लिस्टिंग ऑक्सीग्रेशन और धोषणा आवश्यक्ताएं) निवमनी 2015 और कम्पनी अधिनियम 2013 तथा उनके तहत बनारों गये निवमों के सभी लागू प्रथमनी के अनुपालन में बीडियों कोर्किरों ('वीसी') / अन्य ऑडियो सोबियों साथनीं ('ओपसीएम') के माध्यम से मंगलयार, 29 स्तिस्पर 2020 को पूर्वा.

11.30 बजे आइंएसटी आयोजिन ब्ही जाएगी। परिपत्रों की अनुपालना में, एजीएम की सूचना सहित वित्तीय वर्ष 2019 20 हेतु व्यक्तिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') केवल इं-मेल द्वारा उन् सभो सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके इं-मेल पने वस्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रिपोर्ट') केयल इं-मेल हारा उन सभी स्वस्थों को भंजी जाएगी जिनके इं-मेल पते कम्पनीं / डिप्पीजिटरी पार्टिजिपेंट्स के पात पंजीवृत हैं। तरह्यों को बार्क रिपोर्ट की भीतिक प्रति भेजने को आवश्यकता को उपरोक्त परिश्वों के अनुक्त समाण का रिया गया है। वीसीओपिवरिए के माध्या पर क्रांचिस के आवश्यकता को उपरोक्त परिश्वों के अनुक्त समाण का रिया गया है। वीसीओपिवरिए के माध्या पर क्रांचिस होने वाले सदस्यों को असिवरिए के साथ जा जाएगा। यार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की येवसाइट्स www.hphhreads.com, रर्दिक प्रवस्ते जं अर्वात है। गिना जाएगा। यार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की येवसाइट्स www.beetinia.com और सीडोप्टासल वेवसाइट्स www.evotiniaindia.com से डाउनलोड की जा एकता है। जिन सदस्यों के ई-मेल आईडी काम्पनी/दिपारितरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीवृत्त नहीं हैं, से इलेक्ट्रोनिकली कप्पनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं इत्यादि समेत सभी संबार प्राप्त करने हेंनु अपने ई-मेल आईडी पंजीकरण अथवा अव्यतन करने के लिये निम्म प्रवस्त कामी संबार प्राप्त करने हेंनु अपने ई-मेल आईडी पंजीकरण अथवा अव्यतन करने के लिये निम्म प्रवस्त कामी संबार प्राप्त करने हेंनु अपने ई-मेल आईडी पंजीकरण अथवा नहीं करना चुके हैं, से टक्किमोनिकली कप्पनी के प्राप्त करने वाले सदस्य और जो कम्पनी के पास अपने ई-मेल पत्ते पंजीवृत्त / अयतन करी करना चुके हैं, से टक्किमोनिकलीकरा, अथवा वार्तिक के प्रवस्त के प्रवस्त के सार्टीए को प्रतिलोग ने, ई मेल आईडी के विवरण और पैन काई की एक व्य सत्यापित प्रति संत्रन करते हुने कम्पनी / अर्रटीए को लिखकर इसे पंजीवृत्त / अयतन करनाने का अप्रह किया जाता है।

बी) ढिमैटीरियलाइज्ड मीड में शैयरथारण करने वाले सदस्यों से सम्बद्ध डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपने ई मेल पते पंजीकरण / अयवतन करवाने का आग्रह किया जाता है।

बा) िहमटारियलाइण्ड, मार्ड में श्वेयरक्षरण करने वाल तरस्या है सम्बद्ध हिंपाजिटर पाटासपट्स के पास अपने ई मेल पते पंजीकरण / आझत करवाने का आग्रह किया जाता है। कम्पनी एजीएम से पूर्व दुस्त्य ई-वीटिंग सुविधा और एजीएम में ई-वाटिंग सुविधा इसके सदस्यों को एजीएम में इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले सभी प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना मत देने के अधिकार का उपनोग करने के लिये प्रदान कर रहा है और ग्रह सुविधा सेंट्रल हिपाजिटरी सर्विसेज (ईहिया)

आध्वतार का उपयोग करन का लिंग प्रदान कर रहा है और यह सुलिध सेट्रल (हपाजेटर) सीवर्सक (इ.१६.४) लिम्टिट (सीवर्सक) हिम्स्यूल) हाम प्रदान की जा रही है।
एजीएम में ई-बोर्टिंग हेतु सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाएगी जो बीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मत नहीं दे चुके हैं। जो सदस्य एजीएम में उपलिख है और दूरस्थ ई-बोर्टिंग होगा को माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मत नहीं दे चुके हैं। जो सदस्य एजीएम में पूर्व दूरस्थ ई-बोर्टिंग होग अपना मत दे नुके हैं, जोसो / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भी उपस्थित रह सकते / भाग ले सकते हैं परन्तु उनको दोवारा मत देने का अधिकार नहीं होगा।
जो सदस्य भौतिक रूप में गोमराधारण कर रहे हैं अध्या अपने ई-मेरा पर्ने कस्मानी / हिमाजिटरों के पास जो सदस्य भीतिक रूप में शैक्या कर रहे हैं अथवा अपने इ मल पत कम्मना / डिपाजिटर के पास पंजीकृत नहीं करता है से इंथया कोई व्यक्ति जो कम्मनी के शेखर अर्जन करता है तथा पूजन के पर्ण्यात कम्मनी का सदस्य बनता है, को कम्मनी द्वारा इसैक्ट्रोनिकलो भेज दी गई है और कर ऑफ तिथि अथात 22 सिताब्द 2020 के अनुसार शैक्यारण करता है, ई मेल आइंडी sæ@hpthreads.com पर कम्मनी की अथवा ई-मेल आइंडी helpdesk evoting@cdslindla.com पर लिख सकता / सकती है। बच्चाप, यह कोई सदस्य ई-वोटिंग हेतु सीडोएसएल के पास पहले से ही पंजीकृत है तो सतदान करने के लिये मीजूदा युजर आईडी और पासव्यंह का उपयोग किया जा सकता है।

कृते एच.पी. कॉटन टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड